



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2015/माघ 16, 1936

No. 70]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2015/MAGHA 16, 1936

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली 4 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 73(अ).—भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में आगे और संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1 (1) इन नियमों को भारतीय डाकघर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में, नियम 72 के अंतर्गत उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

“(2) उप नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अपवाद स्वरूप छूट प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर, ऐसी सभी मूल्य देय वस्तुओं जिनके मामले में वसूल किए जाने के लिए तय राशि 1500 रुपए से अधिक है, का बीमा कम से कम प्रेषिती से वसूल

किए जाने के लिए निर्धारित राशि के बराबर अनिवार्य रूप से किया जाएगा।”

[फा. सं. 7-6/2013-पीओ]

डा. अभिनव वालिया, उप महानिदेशक

(डब्ल्यूएस/एमआर एवं पीओ)

टिप्पणी : 01 जनवरी, 1975 तक यथासंशोधित मूल नियमों को डाक एवं तार नियम पुस्तिका खंड-I, विधायी अधिनियमन, भाग-1 पंचम संस्करण में प्रकाशित किया गया तथा पिछला संशोधन दिनांक 28 मई, 2014 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 366 (अ) द्वारा किया गया।

1. सा.का.नि. 2888, दिनांक 19 दिसम्बर, 1975
2. सा.का.नि. 596(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1975
3. सा.का.नि. 741(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1975
4. सा.का.नि. 472 दिनांक 24 जनवरी, 1976
5. सा.का.नि. 93(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1976
6. सा.का.नि. 811(अ), दिनांक 31 मई, 1976
7. सा.का.नि. 943 (अ), दिनांक 21 जून, 1976
8. सा.का.नि. 135(अ), दिनांक 7 जनवरी, 1978

9. सा.का.नि. 304(अ), दिनांक 29 मई, 1978
10. सा.का.नि. 316(अ), दिनांक 18 मई, 1979
11. सा.का.नि. 4118(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1979
12. सा.का.नि. 1256(अ), दिनांक 13 मई, 1980
13. सा.का.नि. 490(अ), दिनांक 26 जून, 1980
14. सा.का.नि. 491(अ), दिनांक 26 जून, 1980
15. सा.का.नि. 380(अ), दिनांक 5 जून, 1981
16. सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1981
17. सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 11 फरवरी, 1982
18. सा.का.नि. 411(अ), दिनांक 13 मई, 1982
19. सा.का.नि. 417(अ), दिनांक 22 मई, 1982
20. सा.का.नि. 520(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1982
21. सा.का.नि. 33(अ), दिनांक 20 जनवरी, 1983
22. सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1983
23. सा.का.नि. 92(अ), दिनांक 21 मार्च, 1983
24. सा.का.नि. 444(अ), दिनांक 23 मार्च, 1983
25. सा.का.नि. 37(अ), दिनांक 17 जनवरी, 1984
26. सा.का.नि. 1652(अ), दिनांक 19 मई, 1984
27. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 16 अप्रैल, 1986
28. सा.का.नि. 329, दिनांक 3 मई, 1986
29. सा.का.नि. 461, दिनांक 14 जून, 1986
30. सा.का.नि. 2420(अ), दिनांक 28 जून, 1986
31. सा.का.नि. 436(अ), दिनांक 24 जुलाई, 1986
32. सा.का.नि. 2460(अ), दिनांक 24 जुलाई, 1986
33. सा.का.नि. 3677(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 1986
34. सा.का.नि. 1333(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1986
35. सा.का.नि. 85(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
36. सा.का.नि. 548(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1987
37. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 10 अप्रैल, 1987
38. सा.का.नि. 265(अ), दिनांक 11 अप्रैल, 1987
39. सा.का.नि. 480(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 1987
40. सा.का.नि. 531(अ), दिनांक 27 मई, 1987
41. सा.का.नि. 438(अ), दिनांक 6 जून, 1987
42. सा.का.नि. 632(अ), दिनांक 27 अगस्त, 1987
43. सा.का.नि. 688 दिनांक 30 अगस्त, 1987
44. सा.का.नि. 807(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 1987
45. सा.का.नि. 823(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1987
46. सा.का.नि. 829(अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1987
47. सा.का.नि. 976(अ), दिनांक 9 नवम्बर, 1987
48. सा.का.नि. 1(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1988
49. सा.का.नि. 2(अ), दिनांक 1 जनवरी, 1988
50. सा.का.नि. 55(अ), दिनांक 15 जनवरी, 1988
51. सा.का.नि. 212 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 1988
52. सा.का.नि. 344 (अ), दिनांक 4 मार्च, 1988
53. सा.का.नि. 388 (अ), दिनांक 14 अप्रैल, 1988
54. सा.का.नि. 462(अ), दिनांक 2 मई, 1988
55. सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 23 मई, 1988
56. सा.का.नि. 683, दिनांक 7 जून, 1988
57. सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 29 जून, 1988
58. सा.का.नि. 633(अ), दिनांक 1 जुलाई, 1988
59. सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 8 जुलाई, 1988
60. सा.का.नि. 866(अ), दिनांक 26 सितम्बर, 1988
61. सा.का.नि. 1022(अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 1988
62. सा.का.नि. 14(अ), दिनांक 4 जनवरी, 1989
63. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 10 जनवरी, 1989
64. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1989
65. सा.का.नि. 223(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1989
66. सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 1 मार्च, 1989
67. सा.का.नि. 314(अ), दिनांक 1 मई, 1989
68. सा.का.नि. 435(अ), दिनांक 9 जून, 1989
69. सा.का.नि. 478(अ), दिनांक 24 जून, 1989
70. सा.का.नि. 639(अ), दिनांक 26 अगस्त, 1989
71. सा.का.नि. 804(अ), दिनांक 12 अक्टूबर, 1989
72. सा.का.नि. 821(अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 1989
73. सा.का.नि. 898, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989
74. सा.का.नि. 965, दिनांक 12 दिसम्बर, 1989

75. सा.का.नि. 1077(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1989
76. सा.का.नि. 1078(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1989
77. सा.का.नि. 967(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 1989
78. सा.का.नि. , 198(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1990
79. सा.का.नि. 100(अ), दिनांक 1 मार्च, 1990
80. सा.का.नि. , 197(अ), दिनांक 5 मार्च, 1990
81. सा.का.नि. 312(अ), दिनांक 5 अप्रैल, 1990
82. सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 1990
83. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 11 मई, 1990
84. सा.का.नि. 544(अ), दिनांक 5 जून, 1990
85. सा.का.नि. 545(अ), दिनांक 5 जून, 1990
86. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 13 जून, 1990
87. सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1990
88. सा.का.नि. 628(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1990
89. सा.का.नि. 671(अ), दिनांक 31 अगस्त, 1990
90. सा.का.नि. 694(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 1990
91. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 1990
92. सा.का.नि. 918(अ), दिनांक 28 नवम्बर, 1990
93. सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 20 सितम्बर , 1991
94. सा.का.नि. 178(अ), दिनांक 6 अप्रैल, 1992
95. सा.का.नि. 79(अ), दिनांक 4 जनवरी, 1993
96. सा.का.नि. 259(अ), दिनांक 5 मार्च, 1993
97. सा.का.नि. 420(अ), दिनांक 17 मई, 1993
98. सा.का.नि. 615(अ), दिनांक 20 सितम्बर, 1993
99. सा.का.नि. 616(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 1993
100. सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 1993
101. सा.का.नि. 43(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1994
102. सा.का.नि. , 193(अ), दिनांक 18 फरवरी, 1994
103. सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 26 मार्च, 1994
104. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 2 जून, 1994
105. सा.का.नि. 502(अ), दिनांक 8 जून, 1994
106. सा.का.नि. 793(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 1994
107. सा.का.नि. 836(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 1994
108. सा.का.नि. 860(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 1994
109. सा.का.नि. 873(अ), दिनांक 21 दिसम्बर, 1994
110. सा.का.नि. 931(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 1994
111. सा.का.नि. 121(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1995
112. सा.का.नि. 342(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 1995
113. सा.का.नि. 484(अ), दिनांक 14 जून, 1995
114. सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1995
115. सा.का.नि. 737(अ), दिनांक 13 नवम्बर, 1995
116. सा.का.नि. 926(अ), दिनांक 20 नवम्बर, 1995
117. सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 29 नवम्बर, 1995
118. सा.का.नि. 783(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 1995
119. सा.का.नि. 201(अ), दिनांक 7 मई, 1996
120. सा.का.नि. 372(अ), दिनांक 21 अगस्त, 1996
121. सा.का.नि. 27(अ), दिनांक 18 सितम्बर, 1996
122. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 1996
123. सा.का.नि. 573(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 1996
124. सा.का.नि. 267(अ), दिनांक 19 मई, 1997
125. सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 30 मई, 1997
126. सा.का.नि. 318(अ), दिनांक 10 जून, 1997
127. सा.का.नि. 351(अ), दिनांक 26 जून, 1997
128. सा.का.नि. 723(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
129. सा.का.नि. 41(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1998
130. सा.का.नि. 42(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1998
131. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1998
132. सा.का.नि. 503(अ), दिनांक 19 अगस्त, 1998
133. सा.का.नि. 40(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1999
134. सा.का.नि. 46(अ), दिनांक 22 जनवरी, 1999
135. सा.का.नि. 77(अ), दिनांक 9 फरवरी, 1999
136. सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 13 मई, 1999
137. सा.का.नि. 357(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2000
138. सा.का.नि. 672(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2000
139. सा.का.नि. 71(अ), दिनांक 7 फरवरी, 2001
140. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 24 मई, 2001

141. सा.का.नि. 7(अ), दिनांक 3 जनवरी, 2002
 142. सा.का.नि. 23(अ), दिनांक 11 जनवरी, 2002
 143. सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 14 मई, 2002
 144. सा.का.नि. 381(अ), दिनांक 24 मई, 2002
 145. सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 2 सितम्बर, 2002
 146. सा.का.नि. 637(अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2002
 147. सा.का.नि. 705(अ), दिनांक 4 सितम्बर, 2003
 148. सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 10 अगस्त, 2004
 149. सा.का.नि. 670(अ), दिनांक 14 अक्टूबर, 2004
 150. सा.का.नि. 292(अ), दिनांक , 19 मई, 2005
 151. सा.का.नि. 30(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2006
 152. सा.का.नि. 466(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2006
 153. सा.का.नि. 487(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2006
 154. सा.का.नि. 663(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 2006
 155. सा.का.नि. 210(अ), दिनांक 20 मार्च, 2007
 156. सा.का.नि. 511(अ), दिनांक 27 जुलाई, 2007
 157. सा.का.नि. 532(अ), दिनांक 3 अगस्त, 2007
 158. सा.का.नि. 775(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2007
 159. सा.का.नि. 22(अ), दिनांक 9 जनवरी, 2008
 160. सा.का.नि. 59(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2008
 161. सा.का.नि. 238(अ), दिनांक 28 मार्च, 2008
 162. सा.का.नि. 400(अ), दिनांक 25 मई, 2008
 163. सा.का.नि. 588(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2008
 164. सा.का.नि. 864(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2008
 165. सा.का.नि. 86(अ), दिनांक 9 फरवरी, 2009
 166. सा.का.नि. 282(अ), दिनांक 24 अप्रैल, 2009
 167. सा.का.नि. 789(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 2009
 168. सा.का.नि. 310(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2010
 169. सा.का.नि. 379(अ), दिनांक 5 मई, 2010
 170. सा.का.नि. 408(अ), दिनांक 17 मई, 2010
 171. सा.का.नि. 517(अ), दिनांक 16 जून, 2010
 172. सा.का. 10(अ), दिनांक 4 जनवरी, 2011
 173. सा.का.नि. 37(अ), दिनांक 19 जनवरी, 2011
 174. सा.का.नि. 58(अ), दिनांक 31 जनवरी, 2011

175. सा.का.नि. 63(अ), दिनांक 3 फरवरी, 2011
 176. सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 1 अक्टूबर, 2012
 177. सा.का.नि. 1211(अ), दिनांक 13 मई, 2012
 178. सा.का.नि. 648(अ), दिनांक 23 सितम्बर, 2013
 179. सा.का.नि. 738(अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2013
 180. सा.का.नि. 738(अ), दिनांक 28 मार्च, 2014
 181. सा.का.नि. 366(अ), दिनांक 28 मई, 2014

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
 INFORMATION TECHNOLOGY
 (Department of Posts)
 NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th February, 2015

G.S.R.73(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (2) of Section 32 read with Section 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (First Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Post Office Rules, 1933, in Rule 72, for Sub-Rule (2), the following Sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in Sub-Rule (1), the insurance of all value payable articles on which the amount specified for recovery exceeds Rs. 1500 other than excepted articles, shall be compulsory for atleast the amount specified for recovery from the addressee.”

[F. No. 7-6/2013-PO]

ABHINAV WALIA, Dy. Director General
(WS&MR & PO)

Note: The principal rules as amended up to the 1st January, 1975 were published in the Posts and Telegraphs Manual Volume-I, Legislative Enactments, Part-I, Fifth Edition and last amended *vide* notification number G.S.R. 366(E), dated – 28th May, 2014.

1. G.S.R. 2888, dated the 19th December, 1975
2. G.S.R. 596(E), dated the 30th December, 1975
3. G.S.R. 741(E), dated the 31st December, 1975
4. G.S.R. 472, dated the 24th January, 1976
5. G.S.R. 93(E), dated the 25th February, 1976

6. G.S.R. 811(E), dated the 31st May, 1976
7. G.S.R. 943(E), dated the 21st June, 1976
8. G.S.R. 135(E), dated the 7th January, 1978
9. G.S.R. 304(E), dated the 29th May, 1978
10. G.S.R. 316(E), dated the 18th May, 1979
11. G.S.R. 4118(E), dated the 29th December, 1979
12. G.S.R. 1256(E), dated the 13th May, 1980
13. G.S.R. 490(E), dated the 26th June, 1980
14. G.S.R. 491(E), dated the 26th June, 1980
15. G.S.R. 380(E), dated the 5th June, 1981
16. G.S.R. 409(E), dated the 26th September, 1981
17. G.S.R. 59(E), dated the 11th February, 1982
18. G.S.R. 411(E), dated the 13th May, 1982
19. G.S.R. 417(E), dated the 22nd May, 1982
20. G.S.R. 520(E), dated the 10th August, 1982
21. G.S.R. 33(E), dated the 20th January, 1983
22. G.S.R. 49(E), dated the 2nd February, 1983
23. G.S.R. 92(E), dated the 21st March, 1983
24. G.S.R. 444(E), dated the 23rd March, 1983
25. G.S.R. 37(E), dated the 17th January, 1984
26. G.S.R. 1652(E), dated the 19th May, 1984
27. G.S.R. 637(E), dated the 16th April, 1986
28. G.S.R. 329, dated the 3rd May, 1986
29. G.S.R. 461, dated the 14th June, 1986
30. G.S.R. 2420, dated the 28th June, 1986
31. G.S.R. 436(E), dated the 24th July, 1986
32. G.S.R. 2460(E), dated the 24th July, 1986
33. G.S.R. 3677(E), dated the 25th October, 1986
34. G.S.R. 1333(E), dated the 29th December, 1986
35. G.S.R. 85(E), dated the 6th February, 1987
36. G.S.R. 548(E), dated the 28th February, 1987
37. G.S.R. 379(E), dated the 10th April, 1987
38. G.S.R. 265(E), dated the 11th April, 1987
39. G.S.R. 480(E), dated the 29th April, 1987
40. G.S.R. 531(E), dated the 27th May, 1987
41. G.S.R. 438(E), dated the 6th June, 1987
42. G.S.R. 632(E), dated the 27th August, 1987
43. G.S.R. 688, dated the 30th August, 1987
44. G.S.R. 807(E), dated the 2nd September, 1987
45. G.S.R. 823(E), dated the 15th September, 1987
46. G.S.R. 829(E), dated the 15th September, 1987
47. G.S.R. 976(E), dated the 9th November, 1987
48. G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 1988
49. G.S.R. 2(E), dated the 1st January, 1988
50. G.S.R. 55(E), dated 15th January, 1988
51. G.S.R. 212(E), dated the 26th February, 1988
52. G.S.R. 344(E), dated the 4th March, 1988
53. G.S.R. 388(E), dated the 14th April, 1988
54. G.S.R. 462(E), dated the 2nd May, 1988
55. G.S.R. 639(E), dated the 23rd May, 1988
56. G.S.R. 683, dated the 7th June, 1988
57. G.S.R. 624(E), dated the 29th June, 1988
58. G.S.R. 633(E), dated the 1st July, 1988
59. G.S.R. 684(E), dated the 8th July, 1988
60. G.S.R. 866(E), dated the 26th September, 1988
61. G.S.R. 1022(E), dated the 31st December, 1988
62. G.S.R. 14(E), dated the 4th January, 1989
63. G.S.R. 68(E), dated the 10th January, 1989
64. G.S.R. 180(E), dated the 24th February, 1989
65. G.S.R. 223(E), dated the 28th February, 1989
66. G.S.R. 180(E), dated the 1st March, 1989
67. G.S.R. 314(E), dated the 1st May, 1989
68. G.S.R. 435(E), dated the 9th June, 1989
69. G.S.R. 478(E), dated the 24th June, 1989
70. G.S.R. 639(E), dated the 26th August, 1989
71. G.S.R. 804(E) dated the 12th October, 1989
72. G.S.R. 821(E), dated the 16th October, 1989
73. G.S.R. 898, dated the 2nd December, 1989
74. G.S.R. 965, dated the 12th December, 1989
75. G.S.R. 1077(E), dated the 29th December, 1989
76. G.S.R. 1078(E), dated the 29th December, 1989
77. G.S.R. 967(E), dated the 30th December, 1989
78. G.S.R. 198(E), dated the 5th February, 1990
79. G.S.R. 100(E), dated the 1st March, 1990
80. G.S.R. 197(E), dated the 5th March, 1990
81. G.S.R. 312(E), dated the 5th April, 1990
82. G.S.R. 358(E), dated the 30th April, 1990
83. G.S.R. 379(E), dated the 11th May, 1990
84. G.S.R. 544(E), dated the 5th June, 1990
85. G.S.R. 545(E), dated the 5th June, 1990
86. G.S.R. 783(E), dated the 13th June, 1990
87. G.S.R. 68(E), dated the 10th August, 1990
88. G.S.R. 628(E), dated the 18th August, 1990
89. G.S.R. 671(E), dated the 31st August, 1990

90. G.S.R. 694(E), dated the 11th September 1990
91. G.S.R. 783(E), dated the 12th October, 1990
92. G.S.R. 918(E), dated the 28th November, 1990
93. G.S.R. 622(E), dated the 20th September, 1991
94. G.S.R. 178(E), dated the 6th April, 1992
95. G.S.R. 79(E), dated the 4th January, 1993
96. G.S.R. 259(E), dated the 5th March 1993
97. G.S.R. 420(E), dated the 17th May, 1993
98. G.S.R. 615(E), dated the 20th September, 1993
99. G.S.R. 616(E), dated the 16th September, 1993
100. G.S.R. 778(E), dated the 27th December, 1993
101. G.S.R. 43(E), dated the 21st January, 1994
102. G.S.R. 193(E), dated the 18th February, 1994
103. G.S.R. 152(E), dated the 26th March, 1994
104. G.S.R. 484(E), dated the 2nd June, 1994
105. G.S.R. 502(E), dated the 8th June, 1994
106. G.S.R. 793(E), dated the 7th November, 1994
107. G.S.R. 836(E), dated the 5th December, 1994
108. G.S.R. 860(E), dated the 21st December, 1994
109. G.S.R. 873(E), Dated the 21st December, 1994
110. G.S.R. 931(E), dated the 26th December, 1994
111. G.S.R. 121(E), dated the 24th February, 1995
112. G.S.R. 342(E), dated the 18th April, 1995
113. G.S.R. 484(E), dated the 14th June, 1995
114. G.S.R. 736(E), dated the 13th November, 1995
115. G.S.R. 737(E), dated the 13th November, 1995
116. G.S.R. 926(E), dated the 20th November, 1995
117. G.S.R. 764(E), dated the 29th November, 1995
118. G.S.R. 783(E), dated the 7th December, 1995
119. G.S.R. 201(E), dated the 7th May, 1996
120. G.S.R. 372(E), dated the 21st August, 1996
121. G.S.R. 27(E), dated the 18th September, 1996
122. G.S.R. 517(E), dated the 6th December, 1996
123. G.S.R. 573(E), dated the 18th December, 1996
124. G.S.R. 267(E), dated the 19th May, 1997
125. G.S.R. 295(E), dated the 30th May, 1997
126. G.S.R. 318(E), dated the 10th June, 1997
127. G.S.R. 351(E), dated the 26th June, 1997
128. G.S.R. 723(E), dated the 26th December, 1997
129. G.S.R. 41(E), dated the 21st January, 1998
130. G.S.R. 42(E), dated the 21st January, 1998
131. G.S.R. 406(E), dated the 26th July, 1998
132. G.S.R. 503(E), dated the 19th August, 1998
133. G.S.R. 40(E), dated the 21st January, 1999
134. G.S.R. 46(E), dated the 22nd January, 1999
135. G.S.R. 77(E), dated the 9th February, 1999
136. G.S.R. 345(E), dated the 13th May, 1999
137. G.S.R. 357(E), dated the 27th April, 2000
138. G.S.R. 672(E), dated the 25th August, 2000
139. G.S.R. 71(E), dated the 7th February, 2001
140. G.S.R. 387(E), dated the 24th May, 2001
141. G.S.R. 7(E), dated the 3rd January, 2002
142. G.S.R. 23(E), dated the 11th January, 2002
143. G.S.R. 366(E), dated the 14th May, 2002
144. G.S.R. 381(E), dated the 24th May, 2002
145. G.S.R. 612(E), dated the 2nd September, 2002
146. G.S.R. 637(E), dated the 11th September, 2002
147. G.S.R. 705(E), dated the 4th September, 2003
148. G.S.R. 514(E), dated the 10th August, 2004
149. G.S.R. 670(E), dated the 14th October, 2004
150. G.S.R. 292(E), dated the 13th May, 2005
151. G.S.R. 30(E), dated the 20th January, 2006
152. G.S.R. 466(E), dated the 8th August, 2006
153. G.S.R. 487(E), dated the 18th August, 2006
154. G.S.R. 663(E), dated the 25th October, 2006
155. G.S.R. 210(E), dated the 20th March, 2007
156. G.S.R. 511(E), dated the 27th July, 2007
157. G.S.R. 532(E), dated the 3rd August, 2007
158. G.S.R. 775(E), dated the 18th December, 2007
159. G.S.R. 22(E), dated the 9th January, 2008
160. G.S.R. 59(E), dated the 25th January, 2008
161. G.S.R. 238(E), dated the 28th March, 2008
162. G.S.R. 400(E), dated the 25th May, 2008
163. G.S.R. 588(E), dated the 11th August, 2008
164. G.S.R. 864(E), dated the 18th December, 2008
165. G.S.R. 86(E), dated the 9th February, 2009
166. G.S.R. 282(E), dated the 24th April, 2009
167. G.S.R. 789(E), dated 28th October, 2009
168. G.S.R. 310(E), dated 12th April, 2010
169. G.S.R. 379(E) dated 5th May 2010
170. G.S.R. 408(E), dated 17th May, 2010
171. G.S.R. 517(E), dated 16th June, 2010
172. S.O. 10(E), dated 4th January, 2011
173. G.S.R. 37(E), dated 19th January, 2011

174. G.S.R. 58(E), dated 31st January, 2011
175. G.S.R. 63(E), dated 3rd February, 2011
176. G.S.R. 734(E), dated 1st October, 2012
177. G.S.R. 1211(E), dated 13th May, 2012

178. G.S.R. 648(E), dated 23rd September, 2013
179. G.S.R. 738(E), dated 18th November, 2013
180. G.S.R. 328(E) dated 28th March, 2014
181. G.S.R. 366(E) dated 28th May, 2014

